



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09022022-233248
CG-DL-E-09022022-233248

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 507]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 9, 2022/माघ 20, 1943

No. 507]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 9, 2022/MAGHA 20, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2022

का.आ. 526(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि असम राज्य के कारबी आंगलोंग जिले में NH29 के कि.मी. 50+710 से कि.मी. 65+923 (पैकेज-2) (कारबी आंगलोंग ऑटोनोमस कौंसिल डिपार्टमेंट ऑफ़ राजस्व, दिफू) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जॉइंट सेक्रेटरी (राजस्व) को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि

कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

असम राज्य के कारबी आंगलोंग जिले में NH29 के कि.मी. 50+710 से कि.मी. 65+9232 (पैकेज-कारबी आंगलोंग ऑटोनोमस कौंसिल डिपार्टमेंट ऑफ़ राजस्व, दिफू) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमिका संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: असम		जिले का नाम: कारबी आंगलोंग			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: फुलोनी					
गांव का नाम: डेकचांग १					
1	187-PP-234	निजी	कृषि	0.0001000 (हेक्टेयर)	0.0001000
2	691-PP-117	निजी	एग्रिकल्चर	0.0158000 (हेक्टेयर)	0.0158000
3	717-PP-209	निजी	एग्रिकल्चर	0.0153000 (हेक्टेयर)	0.0153000
4	734-PP-222	निजी	एग्रिकल्चर	0.0026000 (हेक्टेयर)	0.0026000
गांव का नाम: डंगऑन (स)					
1	46-PP-13	निजी	रेजिडेंशियल	0.0031000 (हेक्टेयर)	0.0031000
गांव का नाम: डंगऑन ब्लॉक ३					
1	144-PP-46	निजी	रेजिडेंशियल	0.0050000 (हेक्टेयर)	0.0050000
गांव का नाम: हबेराम					
1	267-PP-89	निजी	एग्रिकल्चर	0.1233000 (हेक्टेयर)	0.1233000
2	605-PP-225	निजी	रेजिडेंशियल	0.1096000 (हेक्टेयर)	0.1096000
गांव का नाम: परखोवा					
1	354-Nill	सरकारी	नदी	0.0050000 (हेक्टेयर)	0.0050000
गांव का नाम: परखोवा नं. 1					
1	1-PP-393	निजी	रैज़िडैन्सल्	0.0050000 (हेक्टेयर)	0.0050000
2	10-PP-214	निजी	रेजिडेंशियल	0.0159000 (हेक्टेयर)	0.0159000
3	1007-PP-198	निजी	कमर्शियल	0.0014000 (हेक्टेयर)	0.0014000
4	1042-PP-303	निजी	रेजिडेंशियल	0.0116000 (हेक्टेयर)	0.0116000

5	1099-PP-256	निजी	कमर्शियल	0.0140000 (हेक्टेयर)	0.0140000
6	11-PP-228	निजी	रेजिडेंशियल	0.0363000 (हेक्टेयर)	0.0363000
7	1155-PP-317	निजी	कमर्शियल	0.0197000 (हेक्टेयर)	0.0197000
8	1180-PP-381	निजी	कमर्शियल	0.0108000 (हेक्टेयर)	0.0108000
9	12-PP-180	निजी	रेजिडेंशियल	0.0221000 (हेक्टेयर)	0.0221000
10	1212-PP-406	निजी	रेजिडेंशियल	0.0500000 (हेक्टेयर)	0.0500000
11	1213-PP-407	निजी	रेजिडेंशियल	0.0023000 (हेक्टेयर)	0.0023000
12	1214-PP-412	निजी	कमर्षल्	0.0151000 (हेक्टेयर)	0.0151000
13	1215-PP-413	निजी	रेजिडेंशियल	0.0143000 (हेक्टेयर)	0.0143000
14	1216-PP-414	निजी	रेजिडेंशियल	0.0141000 (हेक्टेयर)	0.0141000
15	1217-PP-415	निजी	रेजिडेंशियल	0.0219000 (हेक्टेयर)	0.0219000
16	1218-PP-420	निजी	रेजिडेंशियल	0.0020000 (हेक्टेयर)	0.0020000
17	1223-PP-422	निजी	कमर्शियल	0.0162000 (हेक्टेयर)	0.0162000
18	1224-PP-426	निजी	कमर्शियल	0.0060000 (हेक्टेयर)	0.0060000
19	13-PP-83	निजी	रेजिडेंशियल	0.0634000 (हेक्टेयर)	0.0634000
20	14-Nill	सरकारी	सड़क	0.0186000 (हेक्टेयर)	0.0186000
21	15-PP-7	निजी	रेजिडेंशियल	0.0252000 (हेक्टेयर)	0.0252000
22	16-PP-51	निजी	रेजिडेंशियल	0.0255000 (हेक्टेयर)	0.0255000
23	17-PP-51	निजी	रेजिडेंशियल	0.0111000 (हेक्टेयर)	0.0111000
24	18-PP-211	निजी	रेजिडेंशियल	0.0264000 (हेक्टेयर)	0.0264000
25	19-Nill	सरकारी	सड़क	0.0122000 (हेक्टेयर)	0.0122000
26	20-PP-327	निजी	रेजिडेंशियल	0.0193000 (हेक्टेयर)	0.0193000
27	22-PP-78	निजी	कमर्शियल	0.0331000 (हेक्टेयर)	0.0331000
28	23-PP-374	निजी	कमर्शियल	0.0149000 (हेक्टेयर)	0.0149000
29	24-PP-275	निजी	कमर्शियल	0.0321000 (हेक्टेयर)	0.0321000
30	25-PP-367	निजी	कमर्शियल	0.0159000 (हेक्टेयर)	0.0159000
31	26-PP-255	निजी	कमर्शियल	0.0112000 (हेक्टेयर)	0.0112000
32	27-PP-409	निजी	कमर्शियल	0.0131000 (हेक्टेयर)	0.0131000
33	28-PP-212	निजी	कमर्शियल	0.0205000 (हेक्टेयर)	0.0205000
34	3-PP-76	निजी	रेजिडेंशियल	0.0049000 (हेक्टेयर)	0.0049000

35	30-PP-89	निजी	कमर्शियल	0.0343000 (हेक्टेयर)	0.0343000
36	31-PP-23	निजी	कमर्शियल	0.0157000 (हेक्टेयर)	0.0157000
37	327-PP-52	निजी	कमर्शियल	0.0133000 (हेक्टेयर)	0.0133000
38	33-PP-432	निजी	कमर्शियल	0.0130000 (हेक्टेयर)	0.0130000
39	34-PP-431	निजी	कमर्शियल	0.0126000 (हेक्टेयर)	0.0126000
40	35-PP-44	निजी	कमर्शियल	0.0061000 (हेक्टेयर)	0.0061000
41	36-PP-116	निजी	कमर्शियल	0.0136000 (हेक्टेयर)	0.0136000
42	37-PP-83	निजी	कमर्शियल	0.0180000 (हेक्टेयर)	0.0180000
43	38-PP-251	निजी	कमर्शियल	0.0207000 (हेक्टेयर)	0.0207000
44	39-PP-271	निजी	कमर्शियल	0.0271000 (हेक्टेयर)	0.0271000
45	4-PP-383	निजी	रेजिडेंशियल	0.0072000 (हेक्टेयर)	0.0072000
46	40-PP-425	निजी	कमर्शियल	0.0101000 (हेक्टेयर)	0.0101000
47	44-PP-15	निजी	रेजिडेंशियल	0.0235000 (हेक्टेयर)	0.0235000
48	469-PP-259	निजी	रेजिडेंशियल	0.0382000 (हेक्टेयर)	0.0382000
49	5-Nill	सरकारी	सड़क	0.0020000 (हेक्टेयर)	0.0020000
50	6-PP-387	निजी	रेजिडेंशियल	0.0094000 (हेक्टेयर)	0.0094000
51	7-PP-254	निजी	रेजिडेंशियल	0.0378000 (हेक्टेयर)	0.0378000
52	8-PP-173	निजी	रेजिडेंशियल	0.0327000 (हेक्टेयर)	0.0327000
53	9-PP-223	निजी	रेजिडेंशियल	0.0231000 (हेक्टेयर)	0.0231000
54	939-PP-88	निजी	रेजिडेंशियल	0.0013000 (हेक्टेयर)	0.0013000
55	946-PP-94	निजी	रेजिडेंशियल	0.0235000 (हेक्टेयर)	0.0235000
56	952-PP-172	निजी	कमर्शियल	0.0205000 (हेक्टेयर)	0.0205000
57	97-Nill	सरकारी	सड़क	0.0300000 (हेक्टेयर)	0.0300000
58	976-PP-221	निजी	रेजिडेंशियल	0.0226000 (हेक्टेयर)	0.0226000
59	977-PP-213	निजी	रेजिडेंशियल	0.0196000 (हेक्टेयर)	0.0196000
60	988-PP-343	निजी	रेजिडेंशियल	0.0202000 (हेक्टेयर)	0.0202000
कुल				1.4020	1.4020

[फा. सं. JRT/NHIDCL/GM/DPR/VSPL/72/Part-I/72/2018/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2022

S.O. 526(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH29 in the stretch of land from **Km. 50+710 to Km. 65+923 (Package-2)** (Karbi Anglong Autonomous Council Department of Revenue, Diphu) in the district of KARBI ANGLONG in the state of ASSAM, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Joint Secretary (Revenue) in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH29 in the stretch of land from **Km. 50+710 to Km. 65+923 (Package-2) of NH29** (Karbi Anglong Autonomous Council Department of Revenue, Diphu) in the district of KARBI ANGLONG in the state of ASSAM.

State: ASSAM		District: KARBI ANGLONG			
Sl.No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Phuloni					
Village: Dekachang 1					
1	187-PP-234	Private	Agriculture	0.0001000 (Hectare)	0.0001000
2	691-PP-117	Private	Agriculture	0.0158000 (Hectare)	0.0158000
3	717-PP-209	Private	Agriculture	0.0153000 (Hectare)	0.0153000
4	734-PP-222	Private	Agriculture	0.0026000 (Hectare)	0.0026000
Village: Dengaon (C)					
1	46-PP-13	Private	Residential	0.0031000 (Hectare)	0.0031000
Village: Dengaon Block 3					
1	144-PP-46	Private	Residential	0.0050000 (Hectare)	0.0050000
Village: Haberam					
1	267-PP-89	Private	Agriculture	0.1233000 (Hectare)	0.1233000
2	605-PP-225	Private	Residential	0.1096000 (Hectare)	0.1096000
Village: Parakhowa					
1	354-Nill	Government	River	0.0050000 (Hectare)	0.0050000
Village: Parakhowa no.1					
1	1-PP-393	Private	Residential	0.0050000 (Hectare)	0.0050000

2	10-PP-214	Private	Residential	0.0159000 (Hectare)	0.0159000
3	1007-PP-198	Private	Commercial	0.0014000 (Hectare)	0.0014000
4	1042-PP-303	Private	Residential	0.0116000 (Hectare)	0.0116000
5	1099-PP-256	Private	Commercial	0.0140000 (Hectare)	0.0140000
6	11-PP-228	Private	Residential	0.0363000 (Hectare)	0.0363000
7	1155-PP-317	Private	Commercial	0.0197000 (Hectare)	0.0197000
8	1180-PP-381	Private	Commercial	0.0108000 (Hectare)	0.0108000
9	12-PP-180	Private	Residential	0.0221000 (Hectare)	0.0221000
10	1212-PP-406	Private	Residential	0.0500000 (Hectare)	0.0500000
11	1213-PP-407	Private	Residential	0.0023000 (Hectare)	0.0023000
12	1214-PP-412	Private	Commercial	0.0151000 (Hectare)	0.0151000
13	1215-PP-413	Private	Residential	0.0143000 (Hectare)	0.0143000
14	1216-PP-414	Private	Residential	0.0141000 (Hectare)	0.0141000
15	1217-PP-415	Private	Residential	0.0219000 (Hectare)	0.0219000
16	1218-PP-420	Private	Residential	0.0020000 (Hectare)	0.0020000
17	1223-PP-422	Private	Commercial	0.0162000 (Hectare)	0.0162000
18	1224-PP-426	Private	Commercial	0.0060000 (Hectare)	0.0060000
19	13-PP-83	Private	Residential	0.0634000 (Hectare)	0.0634000
20	14-Nill	Government	Road	0.0186000 (Hectare)	0.0186000
21	15-PP-7	Private	Residential	0.0252000 (Hectare)	0.0252000
22	16-PP-51	Private	Residential	0.0255000 (Hectare)	0.0255000
23	17-PP-51	Private	Residential	0.0111000 (Hectare)	0.0111000
24	18-PP-211	Private	Residential	0.0264000 (Hectare)	0.0264000
25	19-Nill	Government	Road	0.0122000 (Hectare)	0.0122000
26	20-PP-327	Private	Residential	0.0193000 (Hectare)	0.0193000
27	22-PP-78	Private	Commercial	0.0331000 (Hectare)	0.0331000
28	23-PP-374	Private	Commercial	0.0149000 (Hectare)	0.0149000
29	24-PP-275	Private	Commercial	0.0321000 (Hectare)	0.0321000
30	25-PP-367	Private	Commercial	0.0159000 (Hectare)	0.0159000
31	26-PP-255	Private	Commercial	0.0112000 (Hectare)	0.0112000
32	27-PP-409	Private	Commercial	0.0131000 (Hectare)	0.0131000
33	28-PP-212	Private	Commercial	0.0205000 (Hectare)	0.0205000
34	3-PP-76	Private	Residential	0.0049000 (Hectare)	0.0049000
35	30-PP-89	Private	Commercial	0.0343000 (Hectare)	0.0343000
36	31-PP-23	Private	Commercial	0.0157000 (Hectare)	0.0157000
37	327-PP-52	Private	Commercial	0.0133000 (Hectare)	0.0133000
38	33-PP-432	Private	Commercial	0.0130000 (Hectare)	0.0130000
39	34-PP-431	Private	Commercial	0.0126000 (Hectare)	0.0126000
40	35-PP-44	Private	Commercial	0.0061000 (Hectare)	0.0061000
41	36-PP-116	Private	Commercial	0.0136000 (Hectare)	0.0136000
42	37-PP-83	Private	Commercial	0.0180000 (Hectare)	0.0180000

43	38-PP-251	Private	Commercial	0.0207000 (Hectare)	0.0207000
44	39-PP-271	Private	Commercial	0.0271000 (Hectare)	0.0271000
45	4-PP-383	Private	Residential	0.0072000 (Hectare)	0.0072000
46	40-PP-425	Private	Commercial	0.0101000 (Hectare)	0.0101000
47	44-PP-15	Private	Residential	0.0235000 (Hectare)	0.0235000
48	469-PP-259	Private	Residential	0.0382000 (Hectare)	0.0382000
49	5-Nill	Government	Road	0.0020000 (Hectare)	0.0020000
50	6-PP-387	Private	Residential	0.0094000 (Hectare)	0.0094000
51	7-PP-254	Private	Residential	0.0378000 (Hectare)	0.0378000
52	8-PP-173	Private	Residential	0.0327000 (Hectare)	0.0327000
53	9-PP-223	Private	Residential	0.0231000 (Hectare)	0.0231000
54	939-PP-88	Private	Residential	0.0013000 (Hectare)	0.0013000
55	946-PP-94	Private	Residential	0.0235000 (Hectare)	0.0235000
56	952-PP-172	Private	Commercial	0.0205000 (Hectare)	0.0205000
57	97-Nill	Government	Road	0.0300000 (Hectare)	0.0300000
58	976-PP-221	Private	Residential	0.0226000 (Hectare)	0.0226000
59	977-PP-213	Private	Residential	0.0196000 (Hectare)	0.0196000
60	988-PP-343	Private	Residential	0.0202000 (Hectare)	0.0202000
Total				1.4020	1.4020

[F. No. JRT/NHIDCL/GM/DPR/VSPL/72/Part-I/72/2018/3A]

RAJESH GUPTA, Director